Oracle Credit Limited

(CIN: L65910DL1991PLC043281)
Regd Office: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016
E mail: oracle_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in
Website: www.oraclecredit.co.in
Tel: 011-26167775



Date: September 9, 2019

Ref. No.: OCL/2019-20/196

To
Listing Operations
BSE Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 539598

Sub: Newspaper publication of Notice of Board Meeting under Regulation 29 and 47 of Chapter IV of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

Dear Sir/ Madam.

Pursuant to Regulation 29 and 47 of Chapter IV of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith a copy of the Notice of Board Meeting to be held on **September 14, 2019**, published in Newspapers namely, Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on **September 8, 2019**.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully, For **Oracle Credit Limited**

Kalpana

(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As Above

FE SUNDAY



ORACLE CREDIT LIMITED P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016 CIN: L65910DL1991PLC043281 E-mail: oracle_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in

Website: www.oraclecredit.co.in, Phone: 011-26167775 NOTICE OF BOARD WIRELING

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 o the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Saturday, 14th September, 2019 at 01:00 P.M. at the Registered Office of the Company at P-7, Green Park Extension, New Delhi- 110016, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended, 30th June, 2019.

Further, in terms of Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by designated persons under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window has been closed for all Designated persons and their immediate relatives from 1st July, 2019 to 16th September, 2019 (both days inclusive).

This information may be accessed on the Company's website at http://www.oraclecredit.co.in/ and may also be accessed on the Stock Exchange's website at http://www.bseindia.com. For Oracle Credit Limited

Place: New Delhi Kalpana

Date: 07.09.2019

(Company Secretary & Compliance Officer)

PMC FINCORP LIMITED

Corporate Office: 14/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060 Regd. Office: B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur, U.P. - 244901 Email ID: pritimercantile@gmail.com; website: www.pmcfinance.in; Tel: 011-42436846, CIN: L27109UP1985PLC006998

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 14" September, 2019 at 5:30 P.M. at the Corporate Office of the Company, at 14/5, Old Raiinder Nagar, New Delhi - 110060, inter-alia to consider and take on record the company's Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019 and any other relevant matter.

For PMC Fincorp Limited

Date: 06.09.2019 Place: New Delhi

Raj Kumar Modi Managing Director



बैंक ऑफ बडौदा (Bank of Baroda) SECTOR- 5 J FARIDABAD BRANCH, SECTOR-5 J, 103, NIT, OPP, K.C. CINEMA FARIDABAD (HARYANA) - 121001

POSSESSION NOTICE [See rule 8 (1)]

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act), 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with (rule 3) of the Security Interest (Enforcement Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 11.07.2018 calling upon the borrower - M/S ASSOCIATED APPLIANCES LTD., C.L.U. PLOT NO. 1 , SECTOR - 56A , FARIDABAD (HARYANA) and guaranters MR. U.S.SHARMA, H. NO. 10, BLOCK- C-2, SECTOR - 11, FARIDABAD (HARYANA) & MR. AKSHAY SHARMA & MRS. PRAVEEN SHARMA AND MRS. DEEPIKA SHARMA, BOTH ARE R/O; H.NO. 1310 SECTOR - 14 , FARIDABAD (HARYANA), M/S MARUTI ENGINEERING INDUSTRIES , C.L.U. PLO' NO. 1, SECTOR - 56 A , OPP. PLOT NO. 84, SECTOR - 25 ,FARIDABAD (HARYANA) AND MRS. PRAVEEN SHARMA AND MRS. AKSHAY SHARMA (PARTNER - M/S MARUTI ENGINEERING INDUSTRIES) , H.NO. 1310 , SECTOR - 14 , FARIDABAD (HARYANA) to repay the amount mentioner in the notice being RS. 21,44,79,049.23 (RS. TWENTY ONE CRORE, FORTY FOUR LACS, SEVENTY NINE THOUSAND, FORTY NINE & PAISA TWENTY THREE ONLY) as on 11.07.2018 with further interest at contractual rate, costs, expenses and other incidental charges etc. thereon within 60 days from the date of the said notice

The Borrowers / Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers Guarantors and the public in general that the undersigned has taken Physical possession of the propert described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub - Sec. (4) of Section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 3 day of sept. 2019. The Borrowers / Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with said Property and any dealings with the Property will be subject to the charge of the BANK OF BARODA SECTOR- 5 J. FARIDABAD BRANCH, SECTOR- 5 J. 103, NIT, OPP, K.C. CINEMA . FARIDABAD (HARYANA) - 121001, for an amount of RS. 21,44,79,049.23 (RS. TWENTY ONE CRORE, FORTY FOUR LACS, SEVENTY NINE THOUSAND, FORTY NINE & PAISA TWENTY THREE ONLY) BS OF 11.07.2018 with further interest at contractual rate , costs , expenses and other incidental charge

[The borrower's attention is invited to provisions of sub - section (8) of section 13 of the Act, i respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable / movable properties

A) ALL THAT PART AND PARCELL OF THE EQUITABLE MORTGAGE OF FACTORY LAND & BUILDING SITUATED AT C.L.U. PLOT NO. 1. SECTOR - 56A. FARIDABAD (HARYANA). ADMEASURING 12221 SQ. YRDS., AT SURVEY NO. PART OF KHASRA / KHEWAT NO. 26/45. R. NO. 20, KILA NO. 16/1 (7-7), 17/1 (1-13), 17/2 (6-7), 18/1 (4-17), IN MAUZA - RENHERA, TEHSIL BALLABHGARH, DISTT. FARIDABAD (HARYANA), IN THE NAME OF M/S MARUTI ENGINEERING INDUSTRIES (GUARANTORS).

BOUNDED AS: North: M/s Sadhu Forging South: Other's Property

LCRD / New Delhi Division

East: Service Lane/ Sec 25 - 56A Dividing Road West: M/s Sadhu Forging

B) HYPOTHECATION OF PLANT & MACHINERY OF M/S ASSOCIATE APPLIANCES LTD.

Date: 03.09.2019 Authorised Officer Bank of Baroda Place: Faridabad

Federal Tower 2/2, First Floor, Patel Road, West Patel Nagar, New Delhi-110008

FEDERAL BANK YOUR PERFECT BANKING PARTNER Ph No. 011-40733980, 981, 982

NOTICE U/S 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002, (hereinafter referred to as Act) r/w Rule 3(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

(1) Mr Deepak Sangwan, S/o. Jagphool Singh residing at House no 27/508A Gali no 4 Near ITI Adarsh Nagar Bahadurgarh District Jhajjar Haryana-124507 carrying business in the name and style of M/s Deepak Cement Agency at Shakti nagar Gali No.1 Main Jhajjar Road Opp Liza Garden Bahadurgarh-124507 Haryana.

(2) Mrs Rekha w/o Mr Deepak Sangwan, residing at House No 27/508A Gali No.4 Near ITI Adarsh Nagar Bahadurgarh Dist Jhajjar Harvana-124507.

(3) Mrs Pushpa Sangwan w/o Mr Ajay Sangwan residing at 567 Ward no 24 Gali no 4 Near ITI Adarsh Nagar Bahadurgarh Dist Jhaijar Harvana-124507.

(4) Mr Ajay Kumar s/o Mr Jagphool Singh residing at 567 Ward no 24 Gali no 4 Near ITI Adarsh Nagar Bahadurgarh Dist Jhajjar Haryana-124507

The 1st of you as principal borrower and 2nd to 4th of you as co-obligants availed a CC Limit (A/c No.15875500000466) for Rs 25 Lakhs (Rupees Twenty Five Lakhs) sanctioned on 16.05.2018, in the name of M/s. Deepak Cement Agency ,a sole proprietorship firm, from The Federal Bank Limited a company registered under the Companies Act having registered office at Alwaye (hereinafter referred to as the bank) through its branch at Bahadurgarh and after executing necessary security agreements / loan documents in favour of the Bank.

Towards the security of the availed credit facilities availed from the Bank all of you have created security interest in favour of the Bank by way of hypothecation in respect of the following properties in ODCC A/c No 15875500000466 in the name of M/s. Deepak Cement Agency:

DESCRIPTION OF HYPOTHECATED MOVABLE PROPERTIES 1) Cash Credit-Hypothecation of stock with Nil margin

(2) Hypothecation of book debts with Nil margin

(3) That the whole of Goods, Produce, Merchandise and other stocks of Cement, Wall putty and POP etc which now or hereafter from time to time during the security shall be brought in stored or be in or about being stocks as described in the stock statement is stored at the Godowns at Shakti Nagar, Gali No.1, Main Jhajjar Road, Opp. Liza garden, Bahadurgarh-124507, Haryana or any other godown to another or from one place to another or wherever else the same may be.

Towards the security of the aforesaid credit facilities availed from the Bank, Sh Deepak Sangwan and Sh Ajay Kumar have created security interest in favour of the Bank by way of mortgage in respect of the following immovable properties on 17/05/2018.

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY

All that piece and parcel of the Residential House bearing House No.27/508-A,Khasra No.567,Gali No.4, Near ITI,Adarsh Nagar,Bahadurgarh,District Jhajjar,Haryana-124507 Admeasuring |150 Sq Yds together with all buildings existing and/or to be| constructed, bounded on East by 20 Ft wide Gali, West by 8 ft wide gali, North by other plot and South by other plot.

The aforesaid hypothecated / mortgaged properties hereinafter referred to as 'the secured assets'. The undersigned being Authorised Officer of the Federal Bank Ltd. hereby inform you that a sum ₹16,01,279.40 (Rupees Sixteen Lac One Thousand Two Hundred Seventy Nine & Paise Forty only) is due from you jointly and severally as on 31.07.2019, in ODCC A/c No 15875500000466, with Bahadurgarh branch of the Bank. In view of the default in repayment, your loan account/s is/are classified as Non-Performing Asset, as per the guideline of RBI.

You are hereby called upon to pay the said amount with further Interest @ 12.05% per annum with monthly rests plus penal interest @ 2% per annum from 01/08/2019 in ODCC A/c No 15875500000466 till the date of paymen and costs within 60 days from the date of this notice, failing which, the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereof including the right to transfer them by way of lease, assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for realising the dues without any further notice to you.

It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of your failure to discharge your liability and the bank initiates remedial actions as stated above, you shall further be liable to pay to the bank all cost, charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance amount without further notice. Your attention is also invited to the provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets (security properties).

|This notice is issued without prejudice to the other rights and| remedies available to the bank for recovering its dues.

This notice was issued on 27th day of August 2019, and the same was served on you but seems not received by you, which necessitated this publication as per the SARFAESI Act.

For The Federal Bank Ltd., Assistant Vice President Dated this the 6th Day of September 2019 (Authorised Officer under SARFAESI Act)

Form No.:5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT LUCKNOW

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007. (Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)

Summons for filling Reply & Appearance by Publication Summons to defendants under Section 19(3) of the Recovery of debts due to the Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with rule 12 and 13 of the Debts

Recovery Tribunal Procedure Rules, 1993) Syndicate Bank, .Applicant. S-9, Gama Shopping Complex, Greater Noida, Distt, Gautam Budh Nagar

M/s Himstar Textiles and Ors. .Defendants

1- M/s Himstar Textiles, (Proprietorship Firm) Through it's Proprietor - Shri Mukesh Kumar Registered Address: I-87, Beta-2, Greater Noida - 201308. 2nd Address: Village Salarpur Near Primary School, Sector - 101, Noida (U.P.)

 Shri Mukesh Kumar S/o Late Jai Prakash, Proprietor of M/s Himstar Textiles, I-87. Beta-2, Greater Noida - 201308.

 Shri Neeraj Kumar S/o Shri Mainveer Singh, R/o D-19, Gamma Ist Greater Noida (U.P.) In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 11/12/2019 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.



THE DELHI STATE COOPERATIVE BANK LTD. Head Office: 31, Netaji Subhash Marg, Daryaganj, New Delhi-110 002

ABRIDGED BALANCE SHEET AS AT 31.03. 2019

	G2055 - 054004	(Amount in Rupee
CAPITAL AND LIABILITIES	Current Year	Previous Year
	As at 31.03.19	As at 31.03.18
Share Capital	151,246,560.00	133,598,530.00
Reserve Fund and Other Reserves	2,731,171,114.83	2,510,059,823.57
Deposits & Other Accounts	11,857,784,470.68	11,418,434,666.59
Borrowings	24,858,328.00	110,329,309.00
Bills for Collection Being Bills Receivable (as per contra)	1,033,678.70	1,171,430.70
Overdue Interest Reserve	423,547,044.94	451,522,051.17
Other Liabilities, Provisions & Interest Payabl Branch Adjustment		472,799,456.73
Profit & Loss A/c	238,113,998.79	227,481,329.74
TOTAL	15,883,642,570.82	15,325,396,597.50
ASSETS	- 160 FB (A)	
Cash & Balance		
with RBI, SBI, SCBs & CCBs	536,820,946.30	631,275,694.32
Balance with Other Banks and		
Money at Call & Short Notice	3,999,366,280.66	3,599,018,538.49
Investments	2,632,130,000.00	2,672,307,500.00
Advances (Net of NPA Provision)	7,894,832,226.02	7,559,875,552.69
Branch Adjustment	2,223,735.41	2,223,735.4
Fixed Assets	191,923,701.75	196,769,292.28
Interest Recoverable	423,547,044.94	451,522,051.17
Bills Receivable Being Bills for Collection		1016231500000
(as per contra)	1,033,678.70	1,171,430.70
Other Assets	184,292,294.73	189,473,847.61
Deferred Revenue Expenditure	17,472,662.31	21,758,954.83
	15,883,642,570.82	15,325,396,597.50
Contingent Liabilities(Guarantee issued to other		4,220,800.00
Contingent Liabilities (DEAF) Previous year's figures have been re-grouped / r	5,161,070.00 e-classified, wherever	5,161,070.00 considered necessa

INCOME	31.03.2019	31.03.2018
Interest and discount	1,506,027,846.30	1,419,633,586.68
Commission, exchange and brokerage	625,693.02	748,045.71
Income from non banking assets and profit fro	om	
sale or dealing with such assets		
Other receipts	25,643,139.24	22,872,816.97
Provision of Leave Encashment Written Back	0.00	0.00
Excess Provision of NPA Written Back	33,664,047.00	54,563,888.49
TOTAL	1,565,960,725.56	1,497,818,337.85
EXPENDITURE		07 - 20 - 20
Interest on deposits, borrowings, etc.	606,652,872.73	592,146,514.20
Other Operating Expenses	658,343,580.78	614,354,676.31
Net Profit before Tax & Provisions	300,964,272.05	291,317,147.34
	1,565,960,725.56	1,497,818,337.85
Net Profit before Tax & Provisions	300,964,272.05	291,317,147.34
Less: Tax & Provisions	78,500,000.00	69,910,375.00

Previous year's figures have been re-grouped / re-classified, wherever considered necessary Dr. Bijender Singh Ch. Sukhbir Singh Panwar Anita Rawat CA A.K. Bansal Vice President Managing Director A.G.M. President

222,464,272.05

221,406,772,34

Dated: 17.08.2019 Higher rate of interest on deposit and Lower lending rates than other Banks. ■ Special Loan Scheme for the Govt. Employees, Current/ Saving Account Holders, Business men, Students, Farmers, Professionals, Educational Institutions /Societies, Retail Traders, Village industries, etc.

Credit Card facility for Farmers, Govt. Employees, Current Account Holders etc.

SERVING WITH WIDE SPREAD NETWORK OF BRANCHES IN THE NCT OF DELHI

Uttaranchal Leasing Limited CIN: L65920DL1984PLC018830

Registered Office: D-5/105, F/F, Awadh Complex, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 Tel: 011-40564147 Email: uttaranchalleasingltd@gmail.com Website: www.uttaranchalleasing.in

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING FACILTY

Notice is hereby given that:

Net Profit (Loss) after Tax & Provisions

Highlights of Bank's Working

- 1) The 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 11:30 A.M. at the D-5/105, F/F. Awadh Complex, Laxmi Nagar, Delhi - 110092, to transact the Business(s) of the Company as stated in the Notice of AGM dated 27th August, 2019.
- 2) The AGM Notice, Proxy Form, Attendance Slip & Annual Report of the Company for 2018-19 have been sent to all members through permitted mode as on 6thSeptember, 2019. 3) The said notice is also available on the corporate website of the Company viz.
- www.uttaranchalleasing.in and on the website of stock exchange viz. www.msei.in 4) Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies Act (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday. September 27th. 2019 to Monday, September 30th, 2019 (both days inclusive).
- 5) In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on the Business(s) set out in the Notice of AGM through remote e-voting facility. NSDL via. M/s Skyline Financial Services Private Limited (RTA) has been engaged by the Company to provide remote E-voting facilities. The procedure for remote e-voting has been outlined in the Notice of AGM.
 - a) Members of the Company holding shares in physical or Dematerialized form, as the case may be, on the cut-off date i.e. Friday, September 20th, 2019, only are entitled to avail the facility to cast their vote by remote e-voting as well as physical ballot voting in the AGM.
- b) The voting period will begin on Friday 27th September, 2019 at 10:00 A.M. and ends on Sunday 29th September, 2019 at 5:00 P.M. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. c) Further, the members who have exercised their right to vote through remote
- e-voting may participate in the AGM, but shall not allowed to vote again thereat. d) The members participating at the meeting, who have not already exercised their right to vote through remote e-voting, shall be able to exercise the right to vote
- at the meeting through physical ballot paper. e) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding share as on cut-off date i.e. 20th September, 2019 may obtain User Id and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or admin@skylinerta.com or uttaranchalleasingltd@gmail.com. The existing

users can also post their query on the aforesaid mail address.

Date: 7th September, 2019

Place: Delhi

The detailed procedure for obtaining User Id and Password is also provided in the Notice of AGM which is available on the Company's Website and the members can also download the same from there. For any Query relating to remote e-voting, Members may please post their query on

uttaranchalleasingltd@gmail.com or Contact Tel: 011-40564147 or Contact Skyline Financial Services Pvt. Ltd. (RTA), Tel: 011-40450193-94 or Website: www.skylinerta.com. By Order of the Board of Directors

For Uttaranchal Leasing Limited

Anita Panwar

(Director) DIN: 05175806

इलाहाबाद बैंक विश्वास की परम्परा

ALLAHABAD BANK

(Short Sale Notice)

Zonal Office, First Floor, Plot No. GP-5 & GP-6, Pt. Deen Dayal Upadhyaypuram, Sikandra, Agra-282 007 Ph.: 0562-2650700, FAX: 0562-2650703, E-mail: zo.agra@allahabadbank.in

PUBLIC SALE NOTICE FOR E-AUCTION OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision of Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Property mortgaged/charged to the Allahabad Bank, the constructive possession of which has been taken by the Authorised Officer of Allahabad Bank, will be sold on "As is where is", As is what is", and "Whatever there is" basis for realization of the debts due to Bank. Further details of property are mentioned below. Earnest Reserve Amount of Name & Add. of Details of the

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantors(s) that the below described immovable

Borrower/Guarantor

Immovable Property

Price (Rs.)

Money Secured Deposit debt (Rs.)

For further details & Terms & Conditions, contact :- Delhi Gate Branch, Agra Mr. Sanjeev Gautam, Ph.: 0562-2520345, Mob-7581801109, E-mail: br.agra_delhigate@allahabadbank.in E-Auction of Properties on Dt. 23.09.2019 at 10:00 am to 01:00 pm under SARFAESI Act 2002 Last Date & time for Submission of Process compliance Form with EMD: Dt. 08.09.2019 to 21.09.2019 upto 5.00 P.M.

(Prop. Shekhar Agarwal) Shop No. 95, Transport Nagar, Near I.S.B.T, Dist-Sector-4, Transport Nagar, I.S.B.T. Agra, Area 18.58 Sq.mtr., In the Agra, Gokulpura, Agra, 2. Mr. Shekhar name of Mr. Shekhar Agarwal S/o Agarwal S/o Late Shri Ved Prakash Late Shri Ved Prakash Agarwal Agarwal R/o : 33/16A/1B, Lohia Bounded as : East- Plot No. 81, Nagar, Balkeshwar, Agra

Guarantor-Mr. Gajendra Agarwal S/o Plot No. 94, South- Plot No. 96 Late Shri Ved Prakash Agarwal, R/o 33/16A/1B, Lohia Nagar, Balkeshwar, Agra

Borrowers/Mortgagors-1. M/s Taj Tyres | A Shop No. 95, Situated at Sect.-4, West- 9.14 mt. wd. Road, North-

(Rupees Eleven Lacs Sixty two Thousand only) incremental amount is Rs. 10000/-

₹ 17,75,795/-Rupees Seventeen (Rs. One Lac Sixteen Thousand Two Hundred

Lacs Seventy Five Thousand Seven Hundred Ninety Five only) + Interest till date of realization of Bank's dues.

For further details & Terms & Conditions, contact :- Khandari Branch, Agra Mr. Jitendra Singh, Ph.: 0562-2521802, Mob-9411836922, E-mail: br.agra_khandari@allahabadbank.in E-Auction of Properties on Dt. 10.10.2019 at 10:00 am to 01:00 pm under SARFAESI Act 2002 Last Date & time for Submission of Process compliance Form with EMD: Dt. 08.09.2019 to 09.10.2019 upto 5.00 P.M. M/s Jain Enterprises, Prop.Sri Ravi Plot No. 36 & 37 situated at Khasra ₹ 33.39.847/-

Jain s/o Sri SureshChand Jain, No. 2690, Nunhai, Mauza Naraich, Guarantors-1. Sri Suresh Chand Jain Teh. Etmadpur, Dist. Agra, Areas/o Late Sri Gulab Chand Jain, 243.305 sq. mtr., In the name of 2. Sri Ajay Kumar Jain s/o Sri Suresh Sri Suresh Chand Jain s/o Late Chand Jain, 3. Sri Ravi Jain S/o Sri Gulab Chand Jain, Bounded as Sri Suresh Chand Jain, All R/o: F-197, Trans Yamuna Colony, Agra

East-Rasta 15 ft., West-Property of Sri Ram Swaroop, North-Property others, South-Property of Rajeev Jain & Ravinder Jain

(Rupees Forty (Rs. Four Lac Five Lacs Fifty Two Twenty Seven Thousand Thousand only) Seven Hundred Bid only) incremental amount is Rs. 10000/-

Rupees Thirty Three Lacs Thirty Nine Thousand Eight Hundred Forty Seven only) + Interest till date of realization of Bank's dues.

Details of Encumbrance: There is no encumbrance on the properties described above to the best of knowledge & information of the Authorized Officer. Platform for E- Auction will be (https://allahabadbank.auctiontiger.net), For details, help, procedure and online bidding on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider M/S e-Procurement Technologies Ltd having its Registered office at B-704-5 Wall Street-II, Opp. Orient Club. Near Gujarat College Road, Ellis bridge, Ahmedabad -380006 .(contact Phone & Mobile Numbers Mr. Ram Sharma -8000023297.Land line No :079-41072409 /408 /410. For downloading further details and terms & conditions, please visit: https://www.allahabadbank.in & https://ibapi.in

Authorised Officer, Allahabad Bank Date: 08-09-2019 Place: Agra

redeem the secured asset.

5. Garh Road Meerut Branch

Mr. RAJ KUMAR Co-Obligant

Open To Sky, South: Corridor Then Flat No 304.

Mr. GAJENDRA

Banwari Lal.

Ramaytar.

POSSESSION NOTICE (RULE 8(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002)

WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of Andhra Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the Act read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated calling upon the borrowers/Guarantors and also owner of the property/surety to repay the amount mentioned in the notice being within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security interest (Enforcement) Rules, 2002 on below mentioned date. The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to

Demand notice dated on

01.06.2019.

Rs. 12,11,429.90 (Rupees

Zero Crores Twelve Lakh

Eleven Thousand Four

Hundred and Twenty Nine

and Ninety paise) as on

Demand notice dated on

01.06.2019 (Substituted

Service on 04.07.2019),

Rs. 30412267.00

(Rupees Three Crores

Four Lakh Twelve

01-06-2019

06.09.2019

04.09.2019

Branch Name & Borrower Name	Descriptions of Immovable Properties	Date of Demand notice & Outstanding Amount	Dated of Possession
(Through Prop: Sh. Anuj Kumar S/o Ram Pal Singh)	Land and Building - Residential house on Plot No. 166 (Three storied), part of Khasra no.1789 Mi, Queensland park colony, bye Pass Road, Village -Jautali, Pragana-Daurala, Tehsil-Sardhana, Dist: Meerut, Uttar Pradesh , (admeasuring 133.74 sq. mtrs) belonging to Mrs. Pooja w/o-Anil Kumar and bounded by East:7.89 Mts/ Plot no-153 colony, West: 7.89 mts/9 Mts Wide Road, North: 16.95 mtr, Plot no-167 colony & South: 16.95 mtr Plot no-165 colony.	Zero Crores Forty Lakh Fifty Two Thousand Eight	03.09.2019
Satering (Through Prop: Mr. Arvind Kumar Rana), 2.Mr Arvind Kumar Rana S/o- Om Prakash Singh Rana,	Land and Building – a Commercial Property bearing Municipal no. 1/1-B, Consisting of Khasra No-1, having an area of 110.87 Sq. mtrs, Situated at Village Mohammadpur Lala, Pragna & Tehsil Meerut, Dist: Meerut belonging to Mr. Arvind Kumar Rana and bounded by East: 15 feet 6 inch/Rasta 30 feet wide, West: 15Feet 3 inch/plot of Smt. kela Devi, North: 79 feet3 inch/Rasta 20feet wide & South: 76 feet/plot of Mool Chand Garg & others		03.09.2019
Singh Co-Applicant Mrs. Paramjeet	IGH S/O Jagir Singh (Owner of the Property), situated at Flat No-D-4(First Floor), Plot No-846, Radha Kunj Apartment, Shalimar S. Paramjeet Garden, Extension-I, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradeshop Singh, Mr. 201005 and bounded by East: Flat No-G, West: Flat No-		03.09.2019
Reclaiming Private Limited (Through Authorised Director Sh. Ravinder Singh Chauhan), Guarantor; Sh. Ravinder Singh	Land and Building - Factory Land & Building situated at part of Khasra No.1192 mi, Village-Badruddin Nagar Nanu, Pargana & Tehsil: Sardhana, Dist: Meerut (admeasuring 2190 sq. mtrs) in the name of M/S S. R. Reclaiming Pvt. Ltd and bounded by East: Others Agriculture land, West: then Patri of the Canal(Nahar), North: Others Agricultural land, South:, Common Passage.	Demand notice dated on 01.06.2019, Rs. 49,18,706.02 (Rupees Zero Crores Forty Nine Lakh Eighteen Thousand Seven Hundred and Six and Two paise) as on 01-06-2019	06.09.2019

deal with the property/ies and any dealings with the property will be subject to the charge of Andhra Bank for an amount for notice amounts and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to

Guarantors, 1.Mr Vipin Kumar Admeasuring 92.90 Sq Mtrs And Bounded By East: Common Thousand Two Hundred S/o Mr Banwari Lal Wall Then Flat No 107, West: Open to Sky, North: Corridor and Sixty Seven and Zero Mr Vikas Agarwal S/o Mr Then Flat No 116, South: Open Sky. paise) as on 01-06-2019 Land and Building - Residential belonging flat to Mr. Vikas Agarwal s/o Mr. Ram Avtar (Owner of the Property), situated at Residental Flat No 312, Built on 3rd Floor of Major Harish Chand Rova Apartment, Ram Bagh Roorkee Road, Meerut Part Of Khasra No 79/2 And 80, Village Roshanpur Dorli, Pargana Daurala, Tehsil Sardhana, District Meerut admeasuring 130.06 Sq Mtrs and bounded by East: Common Wal Then Flat No 311, West: Stairs Then Flat No 313, North:

Land and Building - Residential belonging to Mr. Rajkumar

S/O Shri Sohan Lal (Owner of the Property), situated at

House No 339/8, Scheme No. 7, Sector 8, Shastri Nagar,

Meerut PIN 250004 admesuring 41.88 Sq mtrs and bounded

by East 8.69 Mt Then H N 338/8, West 8.69 Mt Then H N

340/8, North 4.82 Mt Then Road 6.00n Mt Wide, South 4.82

Harish Chand Royal Apartment, Ram Bagh Roorkee Road

Dorli, Pargana Daurala, Tehsil Sardhana, District Meerut

Mt Then Boundery Of Colony The Nala

6. Garh Road Meerut Branch- 1.Land and Building - Residential flat belonging to Mr. Vikas

M/s VARDE INFRATECH Pvt. Agarwal s/o Mr. Ram Avtar (Owner of the Property), situated

Ltd , Mr. Vipin Kumar S/o Mr. at Residental Flat No No. 108 Built On 1" Floor, of Major

2. Mr. Vikas Agarwal S/o Mr. Meerut Part Of Khasra No 79/2 And 80 Village Roshanpur

Land - Residential plot belonging to Mr Vipin Kumar S/o Mr Banwari Lal (Owner of the Property), situated at Plot No 149, Part of Khasra No 278 K, 278 Mi 279, 280, & 277 Appu Green Park Colony, Nh- 58, Revenue Village Jamaullapur, Pargana Daurala, Tehsil Sardhana, District Meerut Admeasuring 162.57 And Bounded By East: 25/7.5 Mts Road, West 25ft/ Other Property, North 70 Ft/ Other Property, South: 70ft/ Plot 4. Land - Residential plot belonging to Mr Vipin Kumar S/o Mr Banwari Lal (Owner of the Property), situated at Plot No 150, Part of Khasra No

278 K, 278 MI, 279, 280, & 277 Appu Green Park Colony, Nh- 58, Revenue Village Jamaullapur, Pargana Daurala, Tehsil Sardhana, District Meerut Admeasuring 162.57 Sq Mtrs And Bounded By East: 25ft/7.5 Mts Road, West: 25ft/ Other Plot, North: 70ft/ Plot No 149, South: 70ft Plot No 151. Land - Residential plot belonging to Mr Vipin Kumar S/o Mr Banwari Lal (Owner of the Property), situated at Plot No 151, Part of Khasra

No 278 K, 278 MI, 279, 280, 277 Appu Green Park Colony, Nh- 58, Revenue Village Jamaullapur, Pargana Daurala, Tehsil Sardhana, District Meerut Admeasuring 162.57 Sq Mtrs And Bounded By East: 25 Ft/ 7.5 Mts Road, West: 25ft/ Other Plot, North: 70 Ft/ Plot No 150, Land and Building – Residential house (unfinished) belonging to Mr Vikas Kumar S/o Mr Ramavtar (owner of The Property), Situated At Plot No 27, Part Of Khasra No 266,267,268,269,270 &271 Appu Green Park Colony, Nh- 58 Revenue Village Sivaya Jamaullapur, Pargana

Daurala, Tehsil Sardhana, District Meerut Admeasuring 111.48 Sq Mtrs And Bounded By East: 20 Ft / 7.5 Mts Road, West 20 Ft / Plot No 43, North: 60 Ft / Plot No 26, South: 60 Ft / Plot No 28. . Residential Flat Belonging To M/s Varde Infratech Pvt. Ltd. (owner Of The Property), Situated At Flat. No A-57/b, Second Floor, of Plot Part Of Khasra No. 252 Mi. Uday City Colony, Revenue Village Mukarabpur Palhera, Pargana Daural, Tehsil Sardhana, District Meerut, Admeasuring 99.08 Sq Mtrs And Bounded By East Flat No A-80/b (2" Floor), West Common Parking Then 12mt Wide Road, North Flat No A-

58/b (2rd Floor), South Flat No A-57/ B(2rd Floor). Residential flat belonging to M/s Varde Infratech Pvt. Ltd (owner of The Property), Situated At Flat No A-58/b, Second Floor, of Plot Part Of Khasra No. 252 Mi, Uday City Colony, Revenue Village Mukarabpur Palhera, Pargana Daural, Tehsil Sardhana, District Meerut Admeasuring 99.08 Sq Mtr. And Bounded By East Then Flat No A-79/b (2rd Floor), West Common Parking Then 12mt Wide Road, North Flat No A-59/b (2rd Floor), South Flat No A-57/B (2" Floor).

 Residential flat belonging to M/s Varde Infratech Pvt. Ltd (owner of The Property), Situated At Flat No A-59/b, (2nd Floor), of Plot Of Khasra No. 252 Mi, Uday City Colony, Revenue Village Mukarabpur Palhera, Pargana Daural, Tehsil Sardhana, District Meerut and Bounded By East Flat No A-78/b (2nd Floor), West Common Parking Then 12mt Wide Road, North Flat No A-60/b (2nd Floor), South Flat No A-58/B (2nd Floor). Residential flat belonging to M/s Varde Infratech Pvt. Ltd. (owner of The Property), Situated At Flat. No A-60/b, (2rd Floor), Of Plot Of Khasra No. 252 Mi, Uday City Colony, Revenue Village Mukarabpur Palhera, Pragna Daural, Tehsil Sardhana, District Meerut And Bounded By East Flat No A-77/b (second Floor), West Common Parking Then 12mt Wide Road, North Flat No A-61/b (second Floor), South Then Flat No A-59/ B(second Floor). 11. Residential flat belonging to M/s Varde Infratech Pvt. Ltd (owner of The Property), Situated At Flat. No A-63/b(second Floor), Of Plot Of

Khasra No. 252 Mi, Uday City Colony, Revenue Village Mukarabpur Palhera, Pargana Daural, Tehsil Sardhana, District Meerut And Bounded By East Flat No A-74/b (second Floor), West Common Parking Then 12mt Wide Road, North Flat No A-64/b (second Floor), South Flat No A-62/B(second Floor). 12. Residential flat belonging to M/s Varde Infratech Pvt. Ltd (owner of The Property), Situated At Flat No A-66/b, (second Floor), Of Plot Of Khasra No. 252 Mi, Uday City Colony, Revenue Village Mukarabpur Palhera, Pargana Daural, Tehsil Sardhana, District Meerut And

Bounded By East Flat No A-71/b (2^{to} Floor), West Common Parking Then 12mt Wide Road, North Flat No A-67/b (2^{to} Floor), South Flat No A-

65/B(2" Floor). Residential flat belonging to M/s Varde Infratech Pvt. Ltd (owner of The Property), Situated At Flat No A-70/b, (2rd Floor), Of Plot Of Khasra No. 252 Mi, Uday City Colony, Revenue Village Mukarabpur Palhera, Pargana Daural, Tehsil Sardhana, District Meerut And Bounded By East Common Parking Then 12mt Wide Road, West Flat No A-67/b (2rd Floor), North Flat No A-69/b (2rd Floor), South Flat No A-71/B(2rd Floor). Land – Residential open Plot Part of Khasra No. 1733 KA, 0.2027,2/3 hectare out of Rakba 4.5400 Hectare, belonging to Vikas Agarwa

s/o Mr Ram Avtar (Owner of the Property), situated at Revenue Village Daurala & Pargana Daurala, Tehsil Sardhana, District Meerut and bounded by East Agirculture Land of Mr. Satpal Singh, West Then Main N. H. -58, North Then Agriculture Land of Mr. Arvind, South Then agriculture Land of Mr. Anuj Date: 06.09.2019 Chief Manager & Authorized Officer, ANDHRA BANK

New Delhi

epaper financia press.com

Date: 2.09.2019

Place: Noida

BHARATIYA GLOBAL INFOMEDIA LIMITED Regd. office:- 1301, Vijaya Building 17, Barakhamba Road,

Connaught Place, New Delhi - 110001. Corp Office: - B-66, Sector-60, Noida-201301. CIN: L74999DL1994PLC062967 NOTICE

NOTICE is hereby given that the 25"Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, the 30 September, 2019 at 03:00 P.M. at A-81, Bipin Chandra Pal Memorial Trust, C.R. Park, New Delhi-110019. The notice in physical form together with the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013, has already been sent to the Members of the Company at their registered address. NOTICE is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the

Register of Members of the Company and Share Transfer Books shall remain closed from 24" September, 2019 to 30" September, 2019 (both days inclusive), for the purpose of 25" Annual General Meeting of the Company to be convened on 30" September 2019.

By Order of the Board of Directors For Bharatiya Global Infomedia Limited

Date: 2.09.2019 Kumar Pushkar Place: Noida (Company Secretary)

BGIL FILMS & TECHNOLOGIES LIMITED BGIL Regd Office: 1301, 13" Floor, Vijaya Building 17, Barakhamba Road,

Connaught Place, New Delhi-110001.

Corp. Office: B-66, Sector 60, NOIDA-201301.

NOTICE NOTICE is hereby given that the 30" Annual General Meeting of the Members of the

Company will be held on Monday, the 30" September, 2019 at 04,00 P.M. at A-81, Bipin Chandra Pal Memorial Trust, C.R. Park, New Delhi-110019. The notice in physical form together with the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013, has already been sent to the Members of the Company at their registered address. NOTICE is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the

Register of Members of the Company and Share Transfer Books shall remain closed from 24" September, 2019 to 30" September, 2019, for the purpose of 30" Annual General Meeting of the Company convened on 30" September, 2019 By Order of the Board of Directors

> For BGIL Films & Technologies Limited Anushka Rastogi (Company Secretary)

ORACLE CREDIT LIMITED Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016 CIN: L65910DL1991PLC043281 E-mail: oracle credit@vahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in

Website: www.oraclecredit.co.in, Phone: 011- 26167775

NOTICE OF BOARD MEETING Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Saturday, 14th September, 2019 at 01:00 P.M. at the Registered Office of the

Company for the quarter ended, 30th June, 2019. Further, in terms of Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by designated persons under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window has been closed for all Designated persons and their immediate relatives from 1st July, 2019 to 16th September, 2019 (both days inclusive).

Company at P-7, Green Park Extension, New Delhi- 110016, inter-alia, to

consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the

This information may be accessed on the Company's website at http://www.oraclecredit.co.in/ and may also be accessed on the Stock Exchange's website at http://www.bseindia.com.

Place: New Delhi Kalpana

Date: 07.09.2019 (Company Secretary & Compliance Officer)

ऋण वसूली आधकरण, दहरादून भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड—248171 प्रकाशन नोटिस ओ०ए० संख्या 209/2019

सपिटत उप नियम (२ए) के नियम 5 समय-समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने की सूचना डायरी संख्या 454 पजांब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स सिद्धार्थ बुटीक और फैशन एवं अन्य

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1983 के सेक्शन-धारा 19 के सब-सेक्शन-उप-धारा (4)

1. मैसर्स सिद्धार्थ बुटीक एवं फैशन, प्रोपराइटर ज्योतिदास स्थित सहस्त्रधारा रोड, निकट आईटी पार्क, हंसमुख अपार्टमेंट, के सामने, देहरादून, उत्तराखण्ड।

 श्रीमती ज्योतिदास पत्नि श्री साहिल दास, निवासी: सहस्त्रधारा रोड, निकट आईटी पार्क. हंसमुख अपार्टमेंट के सामने, देहरादून, उत्तराखण्ड।

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरूद्ध 12,39,733.6 रू. की वसूली हेतु ओ०ए० सं० २०९ / २०१९ संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन / नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन

अधिकारी के समक्ष 23.08.2019 को सूचीबद्ध किया गया था। यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया ज्ञाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि0 16.10.2019 को 10.30 बजे प्रातः अथवा इससे पूर्व आप रवयं व्यक्तिगत रुप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों। सुचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस

प्रकरण पर सनवाई और निर्णय आपकी अनपस्थिति में किया जायेगा। दिनांक 26 अगस्त, 2019 के दिन अधिकरण की मूहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी। ट्रिब्युनल के आदेशानुसार

रजिस्ट्रार (I/C), ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून

RAKAN STEELS LIMITED

CIN: L27320UP1985PLC007582 R/O: NH-2 (1 km from Bara Toll Plaza), Umran, Rania, Kanpur Dehat-209311 Corporate Office: Anand Palace, 10/499, Allen Ganj, Kanpur-208002 E Mail: support@rakansteels.co.in Tel no. +91-9598668666 WEB: www.rakansteels.co.in

NOTICE NOTICE is hereby given that the Thirty-Second Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 10:00 A.M. at the Registered Office of the Company at NH-2 (1 km from Bara Toll Plaza), Umran, Rania, Kanpur Dehat-209311. Notice of the meeting setting out the ordinary and special business to be transacted thereat together with the Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2019, Auditor's Report and Director's Report has been sent to the members to their registered addresses by post and electronically to those members who have registered their e-mail addresses. The Company has completed its dispatch as well as sending of e-mail to members on or before 6th

Members are hereby informed that the Notice of the meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website (www.rakansteels.co.in) and the copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during business hours up to the date of AGM. A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself and a Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less

than 48 hours before the commencement of AGM Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Monday, September 23 , 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days of inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

By the Order of the Board For Rakan Steels Limited

Garima Priyani

Date: 06.09.2019 Place: Kanpur (Company Secretary & Compliance Officer)

बी.सी. पावर कंट्रोल्स लिमिटेड

(सीआईएन : L31300DL2008PLC179414)

पंजी. कार्यालय : 7ए/39, डब्ल्यूईए चानना मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 ई—मेल : info@bonlongroup.com वेबसाइट : www.bcpowercontrols.com फोन : 011-47532795, फैक्स : 011-47532798

एतदहारा सुचना दी जाती है कि कम्पनी की 11वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को पूर्वा. 10.00 बजे पंजीकृत कार्यालय : 7ए / 39, डब्ल्यूईए चानना मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना दिनांकित 30 अगस्त. २०१९ में सचीबद्ध व्यवसाय निष्पादित किया जाएगा। उक्त सचना, परोक्षी प्रपत्र, उपस्थिति। पर्ची तथा वार्षिक रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण सहित उन सदस्यों को, जिनकी ई-मेल आईडी ज कम्पनी के पास पंजीबद्ध हैं, ई—मेल द्वारा 06 सितम्बर, 2019 को भेजी गई है तथा उन सदस्यों को, जिनकी ई-मेल आईडी'ज कम्पनी के पास पंजीबद्ध नहीं हैं, कुरियर द्वारा 06 सितम्बर, 2019 को भेजी गई है। उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.bcpowercontrols.com पर भी उपलब्ध हैं।

बही बंदी : एतदद्वारा आगे सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां शनिवार, 28 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 (दोनों तिथियों सहित) तक एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

ई-वोटिंग एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। ई-वोटिंग के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन)

नियमावली. २०१४ के नियम २० और सेबी (एलओडीआर) के विनियम ४४ के तहत अपेक्षित विस्तत विवरण नीचे दिया गया है

ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय : शुक्रवार, 27-09-2019 पूर्वा. 9.00 बजें। ई-वोटिंग समाप्ति की तिथि एवं समय : रविवार, 29-09-2019 अप. 5.00 बजे।

रविवार, 29-09-2019 अप. 5.00 बजे के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग के प्रयोजन हेत् विच्छेदन तिथि 23 सितम्बर, 2019 है। कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन तिथि को सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में सूचीबद्ध होगा, रिमोट ई-वोटिंग अथवा सामान्य बैठक में

मतपत्र द्वारा मतदान की सविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

है अथवा अरूण कमार जैन, प्रबंध निदेशक से सम्पर्क कर सकता है।

तिथि : 07-09-2019

epaper.jansatta.com

स्थान : नई दिल्ली

सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उन्हें एजीएम में पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। एजीएम मे

मतदान पोलिंग पेपर अथवा मतपत्र द्वारा हो सकता है। वार्षिक सामान्य बैठक की सुधना, ई-वोटिंग के लिए प्रपत्र और अनुदेशों सहित एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर तथा कम्पनी की वेबसाइट www.bcpowercontrols.com पर भी उपलब्ध होगी। जिन शेयरधारकों को सचना प्राप्त नहीं हुई है. वे इसे उपरोक्त वेबसाइट्स से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा अरूण कुमार जैन, प्रबंध निदेशक को ई-मेल

आईडी info@banlongroup.com पर लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो सचना के प्रेषण के उपरांत सदस्य बना है तथा विच्छेदन तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2019 को शेयरधारक है, evoting.nsdl.co.in पर अथवा jibu@bigshareonline.com पर अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग के लिए अपनी लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी शिकायत/संदेह/स्पष्टीकरण(णों) के लिए, शेयरधारकों से बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, शेयर रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए) से फोन नंबर 022-40430261, मोबाइल नंबर : 7045454397 पर अथवा

आरटीए को jibu@biqshareonline.com पर लिखने का अनुरोध किया जाता है। कृते एवं हिते बी.सी. पावर कंट्रोल्स लिमिटेड

हस्ता./-अरूण कमार जैन (प्रबंध निदेशक) डीन: 00438324

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 07.09.2019



(देखें नियम 8 (1) कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना तिथि 10.08.2019 जारी कर ऋणधारकों 1) श्रीमती संतोष कुमारी, पत्नी राम फल, 2) श्री रामफल पुत्र शंकर सिंह को सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 14,98,444/- (रुपये चौदह लाख अन्टानवे हजार चार सौ चौआलिस मात्र) तथा अंतिम भगतान की तिथि तक 10.08.2019 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 05 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी

ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 14,98,444/– तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये सीएफएचएल के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. एसएफ-01, दूसरा तल, प्लॉट नं.-एमएम-19, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, जिला-गाजियाबाद, उ.प्र. पिन-201002 पूर्वः प्लॉट नं. एमएम-20

उत्तरः प्लॉट नं. ए-3/8 एवं ए-3/9 पश्चिमः प्लॉट नं. एमएम-18 दक्षिणः 18 मी. चौड़ी सड़क

तिथि: 5.9.2019 प्राधिकत अधिकारी स्थानः नई दिल्ली केन फिन होम्स लि

फार्म ए सार्वजनिक घोषणा

(इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अन्तर्गत)

प्रासांगिक विवरण

31/11/19/1997				
1.	कारपोरेट देनदार का नाम	गुलाटी रिटेल इण्डिया लिमिटेड		
2.	कारपोरेट देनदार की निगमन की तिथि	18/12/2006		
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कारपोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	आरओसी- दिल्ली एण्ड हरियाणा		
4.	कारपोरेट देनदार की कारपोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	U52599DL2006PLC156654		
5.	कारपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एफ-66, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली-110027		
6.	कारपोरेट देनदार का दिवालियानप शुरू होने की तिथि	30/07/2019 (एनसीएलटी की साइट में 05/09/2019 को आदेश अपलोडेड)		
7.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तिथि	04 मार्च, 2019		
8.	दिवालियापन पेशेवर जैसा कि कार्यरत अंतरिम संकल्प पेशेवर का नाम एवं पंजीकरण यंख्या	अरूण चढढा, पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-001/IP-P00165/2017-2018/10334		
9.	अंतरिम संकल्प पेशेवर, का बोर्ड में पंजीकृत पता एवं ई—मेल	727, ब्रह्मपुरी, मेरठ सीटी उ॰प्र॰-250002 ई–मेल : chadharun@yahoo.com		
10.	अंतरिम संकल्प पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए पता एवं ई—मेल	पत्राचार पताः ई-95/2, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 ई–मेल : chadharun@yahoo.com		
11.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	21 सितम्बर, 2019		
12.	अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा धारा 21 की उप—धारा (6ए) के क्लॉज बी) के अंतर्गत निर्धारित लेनदारों के प्रकार, यदि कोई हों	कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर कारपोरेट देनदार की उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2012-13 की अंकेक्षित वित्तीय कथन के अनुसार किसी भी प्रकार के लेनदार नहीं हैं		
13.	लेनदारों के प्रकार के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर पहचान (प्रत्येक प्रकार में तीन नाम)	 लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं 		
14.	(क) प्रासांगिक प्रपत्र एवं (ख) अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण	https://ibbi.gov.in/downloadform.html लाग् नहीं		

एतंदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि ने नेशनल कम्पनी लॉ अधिकरण ने मैसर्स गुलाटी रिटेल इण्डिया लिमिटेड का कारपोरेट दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को 30/07/2019 को प्रारम्भ करने का आदेश दिया है, एनसीएलटी की वेबसाइट पर आदेश 05/09/2019 को अपलोड

मैसर्स गुलाटी रिटेल इण्डिया लिमिटेड के लेनदारों को एतदद्वारा अपने दावे प्रमाण के साथ अंतरिम संकल्प पेशेवर के मद न० 10 में उल्लिखित पते पर 21 सितम्बर, 2019 अथवा उससे पहले प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदारों को उनके दावे प्रमाण के साथ इलेक्ट्रानिक तरीके से प्रस्तृत करने होंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे प्रमाण के साथ व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक तरीके से प्रस्तुत करने होंगे। दावों के असत्य अथवा भ्रामक प्रमाण दंड की ओर आकर्षित करेंगे।

हस्ता०/–

अरूण चढढा तिथि: 06.09.2019 अंतरिम संकल्प पेशेवर स्थान :नई दिल्ली पंजीकरण संख्या - IBBI/IPA-001/IP-P00165/2017-18/10334

रामा स्टील ट्यब्स लिमिटेड CIN: L27201DL1974PLC007114

पंजी. कार्या.: ए-15, तीसरा फ्लोर, स्वास्थ्य विहार, नई दिल्ली - 110092 फोन: 011-43656667; 49446661 फैक्स: 011-43656699,

ईमेलः investors@ramasteel.com, वेबसाइटः www.ramasteel.com

44वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर सूचना और

ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

 एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), सचना में वर्णित व्यवसाय के निष्पादन के लिए सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11:30 बजे जेपी होटल एंड रिजॉर्ट्स, ६बी, पटपड़गंज, आई.पी. एक्सटेंशन, एनएच–24, सीएनजी पेट्रोल पम्प के पीछे, दिल्ली-110092 में आयोजित की जाएगी।

2. कंपनी ने संवाद उददेश्यों के लिए 45वीं एजीएम की सूचना, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय ब्यौरों सहित वार्षिक रिपोर्ट तथा कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षकों तथा निदेशकों की रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अपने ई-मेल पते को पंजीकृत न कराने वाले सदस्यों को मेजने का कार्य 5 सितम्बर 2019 को पूरा कर लिया है, और जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / निक्षेपी भागीदारों के साथ पंजीकृत है, उन्हें 6 सितम्बर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भेजी जा चुकी हैं।

एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.ramasteel.com पर उपलब्ध है। एजीएम में निष्पादित किये जाने व्यवसाय के सभी मदों से संबंधित सभी संगत दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एजीएम से पूर्व प्रातः 11.00 बजे से अप. 1.00 बजे के बीच सभी कार्यदिवसों (शनिवार एवं रविवार को छोडकर) निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

 कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एजीएम के प्रयोजन हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक 28 सितम्बर, 2019 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

 कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमों 2015 के विनियम 44 के अनुरूप, कंपनी को सदस्यों को एजीएम सूचना दिनांक 13 अगस्त, 2019 में वर्णित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हर्ष है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 27 सितम्बर 2019, प्रातः 9.00 से प्रारम्भ होगी और रविवार, 29 सितम्बर, 2019, सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। रविवार, 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को हटा लिया जायेगा। प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर चुके सदस्य को बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाये गये लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर 2019 तक दर्ज है, वह ही रिमोट ई-वोटिंग तथा बैलेट पेपर के माध्यम से एजीएम में मतदान करने का पात्र होगा।

कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित होने के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बनता है, तो वह लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपना अनुरोध evoting@nsdl.co.in पर ईमेल कर सकता है। हलांकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-बोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

 निदेशक मंडल ने श्री अरुण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएटस, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को मतदान/वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके जांच करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम सूचना में मृद्रित ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को सावधानी से पढ़ें। किसी भी पूछताछ के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध शेयरघारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल को अवलोकन करें या evoting@nsdl.co.in पर या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर सम्पर्क करें। कृते रामा स्टील द्यब्स लिमिटेड

हस्ता/-(नरेश कुमार बंसल) अध्यक्ष एंड प्रबंध निदेशक

BHARATIYA GLOBAL INFOMEDIA LIMITED Regd. office: - 1301, Vijaya Building 17, Barakhamba Road

Connaught Place, New Delhi - 110001. Corp Office: - B-66, Sector-60, Noida-201301. CIN: L74999DL1994PLC062967

NOTICE is hereby given to the members of the Bharativa Global Infomedia Limited. pursuant to the section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Company is offering facility to all its members to exercise their right to vote on resolutions to be passed in the 25" Annual General Meeting ("AGM") of the Company scheduled to be held on Monday 30th September 2019 at 03:00 P.M. at A-81, Bipin Chandra Pal Memorial

The members may caste their votes using an electronic voting from a place other than the venue of meeting. The Company has engaged the Karvy Fintech Private Limited as the agency to provide E-Voting facility.

The Company has sent the Notice of AGM, instructions & other information relating to e voting, along with explanatory statement & other annexure to all the shareholders whose name appear in the register of members. Aforesaid documents are also available on the website of the company.

The details pursuant to the provision are given hereunder:

and ends on Sunday, 29" September, 2019 at 05.00 PM. Cut-off date: 23"September, 2019. In case a person has become the Member of the Company after dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date i.e. 23"September, 2019, may write to Karvy on the email Id: einward.ris@karvy.com or to Mr. Shyam Kumar, Contact No. 040 - 67162222, at [Unit:

Bharatiya Global Infomedia Limited] Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, requesting for the User ID and Password can be used for casting the vote. The members are also informed that:

E-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. Sunday 29" September 2019. The members who have already cast their vote by remote E-voting can attend the meeting

but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date 23" September, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

by R&T Agents. to: kumar.pushkar@bgilinfo.com.

The board of Directors has appointed Mr. Ashutosh Pandey (C.P. No.7385) Practicing

Company Secretaries, Greater Noida as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

For Bharatiya Global Infomedia Limited Date: 2.09.2019 Place: Noida Kumar Pushkar

G. K. CONSULTANTS LIMITED

Regd. Office: 302, G.K. House, 187A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110 065

CIN: L74140DL1988PLC034109 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING,

their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on Saturday, September 07, 2019.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, September 24, 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days inclusive).

In reference to Section 108 of the Companies Act, 2013 & Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is providing remote e-voting facility for transacting businesses contained in the Notice through Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The remote e-voting period commences on Friday, September 27, 2019 at 09.00 A.M and ends on Sunday, September 29, 2019 at 05.00 P.M. No remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

September 23, 2019. Members may note that

a) Remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by members shall not be allowed to change it subsequently.

 The members whose have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote

as voting at the AGM through ballot paper.

For queries, issue or grievances may write and email at akg_gkcl@yahoo.co.in or https://helpdesk.evoting@cdslindia.com By order of the Board

G.K. CONSULTANTS LIMITED Sd/

Place: New Delhi Date: 07.09.2019 FCS: 10105

THE DELHI STATE COOPERATIVE BANK LTD. Head Office: 31, Netaji Subhash Marg, Daryaganj, New Delhi-110 002

Previous Year As at 31.03.19 As at 31.03.18 133,598,530.00 Share Capital 151,246,560.00 2,731,171,114.83 2,510,059,823.57 Reserve Fund and Other Reserves Deposits & Other Accounts 11,857,784,470.68 11,418,434,666.59 110,329,309.00 Borrowings 24,858,328.00 Bills for Collection Being Bills Receivable 1,171,430.70 1,033,678.70 (as per contra) 451,522,051.17 Overdue Interest Reserve 423,547,044.94 472,799,456,73 Other Liabilities, Provisions & Interest Payable 455,887,374.88 Branch Adjustment Profit & Loss A/c 238,113,998.79 227,481,329.74

15,883,642,570.82 15,325,396,597.50 TOTAL ASSETS Cash & Balance with RBI, SBI, SCBs & CCBs 536.820.946.30 631,275,694.32 Balance with Other Banks and 3.599.018.538.49 Money at Call & Short Notice 3,999,366,280.66 2,632,130,000.00 2,672,307,500.00 Investments Advances (Net of NPA Provision) 7,894,832,226.02 7,559,875,552.69 Branch Adjustment 2,223,735.41 2,223,735.41 196,769,292.28 Fixed Assets 191,923,701.75 Interest Recoverable 423,547,044.94 451,522,051.17 Bills Receivable Being Bills for Collection 1,033,678.70 1,171,430.70 (as per contra) Other Assets 184,292,294.73 189,473,847.61

Contingent Liabilities (DEAF) 5,161,070.00 5,161,070.00 INCOME 31.03.2019 Interest and discount 1,506,027,846.30 625,693.02

Provision of Leave Encashment Written Back 0.00 Excess Provision of NPA Written Back 33,664,047.00 TOTAL 1,565,960,725.56 EXPENDITURE Interest on deposits, borrowings, etc. 606,652,872.73 658,343,580.78 Other Operating Expenses Net Profit before Tax & Provisions 300,964,272.05 1,565,960,725.56

291,317,147.34 Net Profit before Tax & Provisions Less: Tax & Provisions 78,500,000.00 69.910.375.00 Net Profit (Loss) after Tax & Provisions 222,464,272.05 221,406,772.34 Previous year's figures have been re-grouped / re-classified, wherever considered necessary

Sd/-Dr. Bijender Singh Ch. Sukhbir Singh Panwar Anita Rawat CA A.K. Bansal President Vice President Managing Director A.G.M.

Retail Traders, Village industries, etc. Credit Card facility for Farmers, Govt. Employees, Current Account Holders etc. **NISHANT INBUILD LIMITED**

CIN: L74899DL2006PLC145669

Regd. Off.: Shop No. 33, First Floor, Kishan Ganj Market, Old Rohtak Road, Delhi-110007 Email ID: inbuildnishant@gmail.com; Tel: 09999841041

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 14th September, 2019 at 5:00 P.M. at the Corporate Office of the Company, inter-alia to consider and take on record the

company's Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30" June, 2019 and

For Nishant Inbuild Limited

Dhirendra Kumar Gupta Date: 06.09.2019 (Managing Director) Place: Delhi

BGIL FILMS & TECHNOLOGIES LIMITED BGIL News & Technology Regd Office: 1301, 13" Floor, Vijaya Building 17, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001. Corp. Office: B-66, Sector 60, NOIDA-201301.

NOTICE is hereby given to the members of the BGIL Films & Technologies Limited, pursuant to the section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (LODR) 2015, the Company is offering facility to all its members to exercise their right to vote on resolutions to be passed in the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company scheduled to be held on Monday 30" September 2019 at 04:00 P.M. at A-81, Bipin Chandra Pal Memorial Trust C.R. Park, New Delhi-110019. The members may cast their votes using an electronic voting from a place other than the venue of meeting. The Company has engaged the Mas Services Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area,

NOTICE

The Company has sent the Notice of AGM, instructions & other information relating to eoting, along with explanatory statement & other annexure to all the shareholders whose name appear in the register of members. Aforesaid documents are also available on the website of the company.

The details pursuant to the provision are given hereunder:

L. All the business set out in the notice of AGM may be transacted through Electronic means. Date and Time of Commencement of E-voting: Friday, the 27th September, 2019 at 09.00 A.M and ends on Sunday, 29" September, 2019 at 05.00 P.M.

 In case a person has become the Member of the Company after dispatch of AGM Notice but 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 on the email Id:

be used for casting the vote.

Date: 2.09.2019

Place: Noida

any other relevant matter.

5. The members are also informed that: a. E-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. Sunday, 29" September, 2019.

b. The members who have already cast their vote by remote E-voting can attend the meeting c. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial

d. The procedure of E-voting is available in the Notice of AGM as well as email sent to member by R&T Agents.

The board of Directors has appointed Mr. Ashutosh Pandey, Practicing Company

Secretaries and Partner M/s AKP & Associates, Greater Noida as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Anushka Rastogi



(अचल सम्पत्ति के लिये)

(देखें नियम 8(1)) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम), 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना तिथि 11.7.2018 जारी कर ऋणधारक–मै. एसोसिएटेड एप्लिएंसेस लि., सी.एल.य प्लॉट नं.1, सेक्टर 56ए, फरीदाबाद (हरियाणा) तथा गारन्टरों-श्री यु.एस.शर्मा, एच.नं. 10, ब्लॉक सी-2 सेक्टर-II. फरीदाबाद (हरियाणा) एवं श्री अक्षय शर्मा एवं श्रीमती प्रवीण शर्मा एवं श्रीमती दीपिका शर्मा. दोने निवासी, एच.नं. 1310, सेक्टर-14, फरीदाबाद (हरियाणा), मै. मारुति इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, सी.एल.यू. प्लॉ नं. 1, सेक्टर 56ए, प्लॉट नं. 84 के सामने, सेक्टर-25, फरीदाबाद (हरियाणा) तथा श्रीमती प्रवीण शर्मा एवं श्री अक्षय शर्मा पार्टनर-मै. मारुति इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एच.नं. 1310, सेक्टर-14, फरीदाबाद, (हरियाणा) क सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु. 21,44,79,049.23 (रुपये इक्कीस

ब्याज, लागत, खर्चे, अनुषांगिक चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदृद्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आज. 3 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों क

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 21,44,79,049.23 (रुपये इक्कीस करोड़ चौआलिस लाख उन्यासी हजार उन्चास एवं पैसे तैईस मात्र) 11.7.2018 को तथ अनुबंधित दर पर ब्याज, लागत, खर्चे, अनुषांगिक चार्जेज आदि के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा, सेक्टर-5जे फरीदाबाद शाखा, सेक्टर-5जे, 103, एनआईटी, के.सी. सिनेमा के सामने, फरीदाबाद (हरियाणा)-12100

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ

क) मै. मारुति इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज (गारन्टरों) के नाम में मौज-रणहेरा, तहसील बल्लभगढ़, जिल फरीदाबाद (हरियाणा) में सर्वे नं. पार्ट खसरा/खेवत नं. 26/45, आर.नं. 20, किला नं. 16/1 (7-7) 17/1, (1–13), 17/2 (6–9), 18/1 (4–17) में सी.एल.यू. प्लॉट नं. 1, सेक्टर–56ए, फरीदाबार (हरियाणा), माप 12221 वर्ग यार्ड्स में स्थित फैक्ट्री भूमि एवं भवन के इक्विटैबल मार्टगैज का सभी

चौहद्दीः उत्तरः मै. साधु फोर्जिंग, पूर्वः सर्विस लेन/सेक-25-56ए डिवायडिंग रोड, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति

ख) मै. एसोसिएट एप्लिऐंसेस लि. के प्लान्ट एवं मशीनरी का हाइपोथेकेशन।

तिथि: 3.9.2019 प्राधिकत अधिकार्र स्थानः फरीदाबाद बैंक ऑफ बडौद

1) The 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 11:30 A.M. at the D-5/105, F/F, Awadh Complex, Laxmi Nagar, Delhi - 110092, to transact the Business(s) of the

Company as stated in the Notice of AGM dated 27th August, 2019. 2) The AGM Notice, Proxy Form, Attendance Slip & Annual Report of the Company for 2018-19 have been sent to all members through permitted mode as on 6thSeptember, 2019.

3) The said notice is also available on the corporate website of the Company viz. www.uttaranchalleasing.in and on the website of stock exchange viz. www.msei.in 4) Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies Act (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share

Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 27th

2019 to Monday, September 30th, 2019 (both days inclusive). 5) In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on the Business(s) set out in the Notice of AGM through remote e-voting facility. NSDL via. M/s Skyline Financial Services Private Limited (RTA)

a) Members of the Company holding shares in physical or Dematerialized form, as the case may be, on the cut-off date i.e. Friday, September 20th, 2019, only are entitled to avail the facility to cast their vote by remote e-voting as well as physical ballot voting in the AGM.

ends on Sunday 29th September, 2019 at 5:00 P.M. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

d) The members participating at the meeting, who have not already exercised their

right to vote through remote e-voting, shall be able to exercise the right to vote at the meeting through physical ballot paper. e) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding share as on cut-off date i.e. 20th September, 2019 may obtain User Id and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in

f) The detailed procedure for obtaining User Id and Password is also provided in the Notice of AGM which is available on the Company's Website and the

For any Query relating to remote e-voting, Members may please post their query on uttaranchalleasingltd@gmail.com or Contact Tel: 011-40564147 or Contact Skyline Financial Services Pvt. Ltd. (RTA), Tel: 011-40450193-94 or Website:

For Uttaranchal Leasing Limited

Anita Panwar (Director)

Date: 7th September, 2019

Place: Delhi

DIN: 05175806

Phase-II, New Delhi-110020 as the agency to provide E-Voting facility.

3. Cut-off date: 23" September, 2019. on or before the cut-off date i.e. 23" September 2019, may write to Mas Services Limited, T-34, info@masserve.com or reach at 11-2638 7281 82, requesting for the User ID and Password can

but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting.

Contact Details for grievances: in case of any issue regarding e-voting you may write an email to: vishalsharma2807@gmail.com

करोड़ चौआलिस लाख उन्यासी हजार उन्चास एवं पैसे तैईस मात्र) 11.7.2018 को तथा अनुबंधित दर प

प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है।

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण

पश्चिमः मै. साध फोर्जिंग।

Registered Office: D-5/105, F/F, Awadh Complex, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 Tel: 011-40564147 Email: uttaranchalleasingltd@gmail.com Website: www.uttaranchalleasing.in

has been engaged by the Company to provide remote E-voting facilities. The

b) The voting period will begin on Friday 27th September, 2019 at 10:00 A.M. and

or admin@skylinerta.com or uttaranchalleasingltd@gmail.com. The existing

members can also download the same from there.

www.skylinerta.com. By Order of the Board of Directors

NOTICE

Trust C.R. Park, New Delhi-110019.

All the business set out in the notice of AGM may be transacted through Electronic means Date and Time of Commencement of E-voting: Friday, the 27° September, 2019 at 09.00 AM

The procedure of E-voting is available in the Notice of AGM as well as email sent to members

Contact Details for grievances: in case of any issue regarding e-voting you may write an email

Website: www.bgil.in (Company Secretary)

E-mail: akg_gkcl@yahoo.co.in, Website: www.gkconsultantsltd.com

BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION The 31st Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, September 30, 2019 at 09:30 A.M. at 301-302, G. K. House, 187A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The same are available on the Company's website at www.gkconsultantsltd.com. Notice of AGM and Annual Report for 2018-19 has been sent to all other members at

The Cut-off date for providing remote e-voting rights will be Monday,

The facility for voting through ballot papers shall be made available at the

d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well

SHILPA VERMA Company Secretary

ABRIDGED BALANCE SHEET AS AT 31.03, 2019 (Amount in Rupees) CAPITAL AND LIABILITIES Current Year

21,758,954.83 Deferred Revenue Expenditure 17,472,662.31 TOTAL 15,883,642,570.82 15,325,396,597.50 Contingent Liabilities(Guarantee issued to others)20,555,429.00 4.220.800.00

Previous year's figures have been re-grouped / re-classified, wherever considered necessary ABRIDGED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019 31.03.2018 1,419,633,586.68 748,045.71 Commission, exchange and brokerage Income from non banking assets and profit from sale or dealing with such assets Other receipts 25,643,139.24 22,872,816.97 0.00 54,563,888.49 1,497,818,337.85 592,146,514.20 614,354,676.31 291,317,147.34 1,497,818,337.85

Highlights of Bank's Working Higher rate of interest on deposit and Lower lending rates than other Banks.

SERVING WITH WIDE SPREAD NETWORK OF BRANCHES IN THE NCT OF DELHI

300,964,272.05

Place: New Delhi Dated: 17.08.2019 Special Loan Scheme for the Govt. Employees, Current/ Saving Account Holders, Business men, Students, Farmers, Professionals, Educational Institutions/Societies,

owners maintained by the depositories as on the cut-off date 23" September 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

For BGIL Films & Technologies Limited



Uttaranchal Leasing Limited CIN: L65920DL1984PLC018830

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING FACILTY Notice is hereby given that:

procedure for remote e-voting has been outlined in the Notice of AGM.

c) Further, the members who have exercised their right to vote through remote e-voting may participate in the AGM, but shall not allowed to vote again thereat.

users can also post their query on the aforesaid mail address.

नई दिल्ली